

AR-1108

**B.Com. (Part-III) Examination**  
**FUNDAMENTALS OF INSURANCE**  
**(Combination—III)**  
**(Banking and Insurance)**

Time : Three Hours]

[Full Marks : 70

**Note :—** (1) All questions are compulsory.  
(2) All questions carry equal marks.

1. (a) Explain the current trends in Insurance Services in India. 4
- (b) Explain the need of Insurance. 4
- (c) What do you mean by 'Contract of Insurance' ? 3
- (d) Explain the purpose of Insurance. 3

**OR**

- (e) Explain Insurance as a social security tool. 4
  - (f) State the meaning of Insurance. 4
  - (g) Explain any three principles of Insurance. 3
  - (h) Explain the role of Insurance in Economic Development. 3
2. Explain the definition and functions of an Insurance Agent. 14

**OR**

Explain the 'Code of Conduct' and Remuneration of an Insurance Agent. 14

3. (a) What are the risks involved in 'Fire Insurance'. 4  
(b) Explain the necessities of 'Crop Insurance' in India. 4  
(c) Write the importance of 'Life Insurance'. 3  
(d) Explain the nature of 'Marine Insurance'. 3

OR

- (e) Give the procedure of settlement of claim of Life Insurance. 4  
(f) Which type of incidents are included in 'Marine Perils' ? 4  
(g) Explain the nature of "Personal Accident Insurance." 3  
(h) Explain the meaning of 'Fire Insurance.' 3  
4. Explain the 'Insurance Promotion Strategies' in detail. 14

OR

What is Actuarial ? Explain the functions of 'Actuary'. 14

5. (a) Write the advantages of privatisation of Insurance. 4  
(b) Write the functions of IRDA. 4  
(c) Explain the characteristics of LIC Act, 1956. 3  
(d) State the characteristics of General Insurance Business Act, 1972. 3

OR

5. (अ) बीमा के निजीकरण के लाभ लिखिए। 4  
(ब) IRDA के कार्य लिखिए। 4  
(क) जीवन बीमा अधिनियम 1956 की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। 3  
(ड) सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 की विशेषताएं बताइए। 3

अथवा

- (इ) 'समूह बीमा' संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 4  
(फ) सामान्य बीमा निगम के कार्य स्पष्ट कीजिए। 4  
(ग) भारतीय सर्वसाधारण बीमा निगम की समस्याएं स्पष्ट कीजिए। 3  
(ह) IRDA की रचना स्पष्ट कीजिए। 3

- (e) Explain the concept of 'Group Insurance Corporation.' 4
- (f) Explain the functions of 'General Insurance Corporation.' 4
- (g) Explain the problems of 'General Insurance Corporation in India.' 3
- (h) Explain the structure of IRDA. 3

(मराठी माध्यम)

सूचना :—(1) पाचही प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. (अ) भारतातील विमा सेवामधील वर्तमान प्रवाह स्पष्ट करा. 4
- (ब) विम्यांची आवश्यकता स्पष्ट करा. 4
- (क) 'विमा करार' या पासुन आपणास काय अर्थबोध होतो ? 3
- (ड) विम्याचा हेतु स्पष्ट करा. 3

किंवा

- (इ) विमा तक सामाजिक सुरक्षिततेचे साधन आहे. स्पष्ट करा. 4
- (फ) विम्याचा अर्थ स्पष्ट करा. 4
- (ग) विम्याची कोणतीही तीन तत्वे स्पष्ट करा. 3
- (ह) आर्थिक विकासात विम्याची भूमिका स्पष्ट करा. 3

2. विमा अभिकर्त्याची व्याख्या व कार्ये स्पष्ट करा. 14

किंवा

विमा अभिकर्त्याची आचारसंहिता आणि मोबदला स्पष्ट करा. 14

3. (अ) अग्नी विम्यामध्ये कोणत्या धोक्याचा समावेश होतो. 4  
(ब) भारतात पीक विम्याची आवश्यकता स्पष्ट करा. 4  
(क) जिवण विम्याचे महत्व लिहा. 3  
(ड) सागरी विम्याचे स्वरूप स्पष्ट करा. 3

किंवा

(इ) जिवण विम्याचे दावे निकालात काढण्याची प्रहीया सांगा. 4

(फ) कोणत्या प्रकारच्या घटनांचा समावेश सागरी धोक्यात होतो. 4

(ग) वैयक्तीक अपघात विम्याचे' स्वरूप स्पष्ट करा. 3

(ह) अग्नी विम्याचा अर्थ स्पष्ट करा. 3

4. विमा संवर्धन व्यूहरचना सविस्तर स्पष्ट करा. 14

किंवा

विमांकन म्हणजे काय ? विमांकनाची कार्ये स्पष्ट करा. 14

5. (अ) विमा खाजगीकरणाचे फायदे लिहा. 4

(ब) IRDA चे कार्य लिहा. 4

(क) जिवन विमा कायदा, 1956 ची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा. 3

(ड) सामान्य विमा व्यवसाय कायदा, 1972 चे वैशिष्ट्ये सांगा. 3

किंवा

- (इ) समुह विम्याची संकल्पना स्पष्ट करा. 4
- (फ) सामान्य विमा महामंडळाची कार्ये स्पष्ट करा. 4
- (ग) 'भारतीय सर्वसाधारण विमा' महामंडळाच्या समस्या स्पष्ट करा. 3
- (ह) IRDA ची रचना स्पष्ट करा. 3

### (हिन्दी माध्यम)

सूचना :—(1) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (अ) भारत में बीमा सेवाओं की वर्तमान प्रवृत्तियाँ (current trends) स्पष्ट कीजिए। 4
- (ब) बीमा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। 4
- (क) 'बीमा करार' से आपको क्या अर्थबोध होता है ? 3
- (ड) बीमा के हेतु स्पष्ट कीजिए। 3

### अथवा

- (इ) बीमा सामाजिक सुरक्षा का साधन है। स्पष्ट कीजिए। 4
- (फ) बीमा का अर्थ बताइए। 4
- (ग) बीमा के कोई भी तीन तत्व स्पष्ट कीजिए। 3
- (ह) आर्थिक विकास में बीमा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 3

2. बीमा अभिकर्ता की परिभाषा तथा कार्यों को स्पष्ट कीजिए।  
14

**अथवा**

बीमा अभिकर्ता की आचार संहिता एवम् परिश्रमिक (Remuneration) स्पष्ट कीजिए।  
14

3. (अ) 'अग्नि बीमा' में कौन-से जोखिम अंतर्भूत हैं। 4  
(ब) भारत में 'फसल बीमा' की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। 4  
(क) 'जीवन बीमा' का क्या महत्व है। 3  
(ड) 'सागरी बीमा' का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। 3

**अथवा**

- (इ) 'जीवन बीमा' दावों का निपटारा करने की प्रक्रिया लिखिए। 4  
(फ) किस प्रकार की घटनाओं का समावेश सागरी जोखिम में होता है ? 4  
(ग) 'व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा' का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। 3  
(ह) 'अग्नि बीमा' का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 3  
4. 'बीमा संवर्धन व्यूहरचना' विस्तार से स्पष्ट कीजिए।  
14

**अथवा**

बीमांकन याने क्या ? बीमांकन के कार्यों को स्पष्ट कीजिए।  
14